

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- Please check that this question paper contains 4 printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 10 questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

**SUMMATIVE ASSESSMENT - II****BODO***Time allowed : 3 hours**Maximum Marks : 80***SECTION A**

1. गाहायाव होनाय फोरखौ गेबेडै साजायना लिरफिन : 1×6=6
- (क) अरनो रोडा सैमा सोनाया
- (ख) मालायजों मोसा, बिसिजों दाउसा
- (ग) जिडाव नाडो बुब्ला गेजेराव
- (घ) दैमा थालाडो रेस थैयो
- (ङ) दैसाखौ बारनानै दैमाखौ बारनो दागि
- (च) बिजौ मोजांब्ला गुदि मोजां

2. गाहायनि आस बोनाय गोरोन्थि बाथ्राफोरखौ गेबें खालाम :

1×6=6

- (क) बिबारा बारब्ला मोदोमा ।
- (ख) आसामनि राजथावनिनि मुडा गुवाहाटी ।
- (ग) बैसागो दमासियाव बिलागुर सावो ।
- (घ) दाउस्त्रिगोबाया सानाव नुजायो ।
- (ङ) बारहुंखा फैयोब्ला बिफां-लाइफांनि बिलाइफोरा मोदोमो ।
- (च) साना सोनावहा ओंखारो ।

3. गाहायाव होनाय दफाखौ फरायना सोंथिफोरनि फिन हो :

1×6=6

गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम थावनिया जादों धुबुरी जिलानि सिडाव थानाय टिपकाइनि काजिगामि । बांला 1267 मायथाइनि (1860 ई.) बैसाग दाननि 5 अक्तरखालि अखा नायसि-नायसि गोथार समाव कालिचरननि जोनोम जायो । धोरोम गुरु फोरनि जिउ खौराडाव मिथिनानै मोनोदि बिसोर बेबादि सुबुंसाइ जाबोनायनि गुदि जाहोना बिमा बिफायानो । धोरोम गोनां, इसोर फोथायगोनां आरो सिबिगोनां बिमा बिफानावसो जुग सुबुंसाइ एबा धोरोम पुरुष उजिफैयो । हजरत महम्मद, जीशुखृष्ट, सैतन्यदेव, शंकरदेव, रामकृष्ण, बिबेकानन्द आरो महात्मा गान्धी बायदि बायदि जुग सुबुंसाइ फोरनि जिड-खौराडा जोंनो बेबादि खिन्थाथो । गुरुदेव कालिचरननि बिमा-बिफायाबो इसोर फोथायसुला आरो सिबिसुलामोन । कालिचरननि बिफा खौराराम मेसा सासे बाथौ सिबियारिमोन ।

**सोंथिफोर :**

- (क) कालिचरननि जोनोम थावनिया बबेयावमोन ?
- (ख) कालिचरननि बिफानि मुडा मा मोन ?
- (ग) बांला बेसेबां मायथायाव कालिचरना जोनोम जादोंमोन ?
- (घ) धोरोम गुरु फोरनि सुबुंसाइ जाबोनायनि गुदियाव सोर थायो ?
- (ङ) कालिचरननि बिफानि मुडा मा मोन ?
- (च) कालिचरननि बिफाया मा धोरोम सिबिग्रामोन ?

## SECTION B

4. गाहायाव होनायफोरनिफिन लिर :

5×3=15

- (क) नों नुनाय माबा मोनसे जाथायखौ लाना दोसे खन्थाइ लिर ।  
(ख) सासे गथ'नि नखरा जोबोद निखावरिमोन । नाथाय गथ'वा जोबोद गियानिमोन । गेदेरखौ सिबिनो आरो उन्दैखौ अननो रेंनाय आरो गावनि नाजाथाबनायनि जाहोनाव सानसे बियो गेदेर मानसि जानो हादोंमोन ।  
— गोजौवाव होनाय सल'खौ लाना बाजिसो सोदोबनि गेजेराव नोंनि रावजों दोसे सल' लिरफिन ।  
(ग) नों लाउखार ओंखाम (पिकनिक) जाहैनाय दाबसे जायगानि मिथिगानि फोरमायथि हो ।

## SECTION C

5. गाहायाव होनाय होनजाब सोदोबखौ बाहायना मोनफा मोनफा बाश्रा दा :

1×5=5

- (क) गां गां  
(ख) फ्रि फ्रि  
(ग) ख्रि ख्रि  
(घ) खाव खाव  
(ङ) फ्राव फ्राव

6. गाहायाव होनाय गोरोन्थि दाजाब सोदोबफोरखौ गेबेडै लिरफिन :

1×5=5

- (क) आइलि खाइलि  
(ख) खेंखा देंखा  
(ग) रां-फैसा  
(घ) आसार कासार  
(ङ) माय जिगाव

7. गाहायाव होनाय बाश्रा फावफोरनि ओंथि फोरमाय :

1×5=5

- (क) गथ'वा खियो देरनो, बोराया खियो थैनो ।  
(ख) जेरावनो जायो बेयावनो खियो ।  
(ग) मानसिब्रै मानसिबा फंभ्रै फंबा ।  
(घ) मावनाय समाव थिंगन, जानाय समाव बेंखन ।  
(ङ) महरा मोजां आखला आंजां ।

## SECTION D

8. गाहायाव होनाय सोंथिफोरनि फिन हो (मोन 100 सो सोदोबनि गेजेराव) : 5×2=10
- (क) बर'फोरनि महर सोरजिनि सोमोन्दै मा मिथिगौ लिर ।
- (ख) 'गोदान' इयुननि मेथाइ' खन्थाइनि गेजेरजों मा सानस्रि बेरखांदों लिर ।
9. फराजों सोमोन्दो लाखिना बेखेवना लिर (मोन 120 सो सोदोबनि गेजेराव) : 6×2=12
- (क) फोरोंनायानो निबेदितानि जिउनि गाहाय थांखिमोन ।
- (ख) बायलुं गोसोनि खांखुवा लुबैनायाव दासासै खैसार दैदेन लांदो गोथार जिउ गोजोन सुदेम ।
10. मोनसे सोदोब एवा बाश्राजों फिन हो : 1×10=10
- (क) मागरिटनि बिफानि मुडा मा मोन ?
- (ख) बिनानाव निबेदिता मुंखौ मागरिटनो सोर होदोंमोन ?
- (ग) गोजा दखनाखौ सोरखौल' गाननाय नुयोमोन ?
- (घ) बर' बराही हारिनि अन्थाइ रिलिभ मुसुखाखौ बबेयाव मोनो ?
- (ङ) चनेट सोदाबा मा रावनि सोदोब ?
- (च) चनेट खन्थायाव मोनबेसे बाहागो थायो ?
- (छ) सोरनि साननायजों सोलियैनि गोरान्थि जानाय बाश्रा खन्थाइ गिरिया बुंदों ?
- (ज) जुग जुग गोरान्थि मावबोनायनि थाखाय मुनुस मैयाया मा जाफैनायनि बाश्रा खन्थाइगिरिया बुंदों ?
- (झ) रावनिबो फोथायनाय इंसिखौ रावबो मा दाखालामफै होनना खन्थाइगिरिया बुंदों ?
- (ञ) मानि राजखान्थि गेलेग्राफोरनिसिम खन्थाइगिरिया आरज गाबदों ।